



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 8—मई 14, 2010 (वैशाख 18, 1932)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 8—MAY 14, 2010 (VAISAKHA 18, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)
केन्द्रीय ऋण प्रभाग
दावा अनुभाग

मुंबई, दिनांक 16 अप्रैल 2010

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गये और भारत सरकार के राजपत्र सं. 228 में दिसम्बर 01, 2007 को प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियमावली, 2007 के विनियम 14 के अनुसार मार्च 2010 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची, खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई-400008 को सूचित करें:--

सूची

ऋण का नाम	प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य रुपये/ग्राम	जिस व्यक्ति के नाम से जारी किया था	किस तिथि से ब्याज	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	कार्यालयीन आदेश की तिथि और संख्या
1	2	3	4	5	6	7
स्वर्ण बांड 1998	बी.वाई.एस. एल.ए. 000100	516 ग्राम स्वर्ण	फकिरचंद बजाज और राकेश बजाज	12/06/1993	फकिरचंद बजाज और राकेश बजाज	मुख्य महाप्रबंधक बैंकिंग के जारी किये आदेश संख्या 3191 दिनांक 29/03/2010

ए. डी. राणे
सहायक प्रबन्धक

भारतीय स्टेट बैंक
मुंबई-400021, दिनांक 4 मई 2010

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक का शेयरधारक रजिस्टर वर्ष 2009-2010 के लाभांश का भुगतान, यदि कोई है, करने के लिए, शुक्रवार 11 जून, 2010 से बुधवार 16 जून, 2010 (इन दोनों दिनों को शामिल करते हुए) तक की अवधि के लिए, शेयरों के अंतरण हेतु बन्द रहेगा।

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 55वीं वार्षिक महासभा "यशवंतराव चव्हाण सेंटर" जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में बुधवार, दिनांक 16 जून, 2010 को अपराह्न 3.30 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु होगी:--
'31 मार्च 2010 तक की केन्द्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, बैंक का तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा तथा तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना'

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

दिल्ली-110052, दिनांक 26 मार्च 2010

सं. एसीसी/दि.वउ./वीसी/1(4)/2009/02/80-- केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रम सं.	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
क्षेत्र : दिल्ली (उत्तरी)			
1.	डीएल/18450	मैसर्स सोफ्ट ऑप्शनस	01.11.1996
2.	डीएल/33345	मैसर्स यूनिसेफ इन्टरनेशनल	01.04.2005
3.	डीएल/27654	मैसर्स विनोद गौतम सेल्स	01.06.2003
4.	डीएल/36093	मैसर्स मोबाईल क्रेडिस फौर वर्किंग मदर्स चिल्डर्न	01.04.2007
5.	डीएल/27560	मैसर्स आर.के. बावटा	01.07.2003
क्षेत्र : दिल्ली (दक्षिण)			
6.	डीएल/32234	मैसर्स डिलेन्को रियल इस्टेट प्रा. लि.	01.09.2005
7.	डीएल/33708	मैसर्स कैलीयो टेक्नोलोजिस (प्रा.) लि.	13.12.2005
8.	डीएल/33865	मैसर्स जियोपैटरोल इन्टरनेशनल इंक.	07.04.2006
9.	डीएल/31592	मैसर्स रिमारी इण्डिया प्रा. लि.	01.09.2004
10.	डीएल/934823	मैसर्स मैग्नेटिक लोजिस्टिक प्रा. लि.	13.04.2007
11.	डीएल/33818	मैसर्स इन्नोसिन वर्ल्डवाइड कम्युनिकेशन प्रा. लि.	08.02.2006
12.	डीएल/34154	मैसर्स हेय हाऊस पब्लिकेशन (इण्डिया) प्रा. लि.	01.07.2006
13.	डीएल/935756	मैसर्स मारिनि स्पा इण्डिया	01.04.2008
14.	डीएल/32246	मैसर्स एम एण्ड सी सॉची कम्युनिकेशन प्रा. लि.	11.11.2005
15.	डीएल/935820	मैसर्स एनग्लो अमेरिकन सर्विसिस प्रा. लि.	01.05.2008

16.	डीएल/937055	मैसर्स हाई कमिशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ बोत्स्वाना	01.07.2008
17.	डीएल/31960	मैसर्स डेसटिनेशन ऑफ द वर्ल्ड प्रा. लि.	01.04.2005
18.	डीएल/937540	मैसर्स एच.एम. इन्फोमेटिक्स प्रा. लि.	01.02.2009
19.	डीएल/31908	मैसर्स फैंरो बिजनेस टेक्नोलोजीस प्रा. लि.	01.03.2005
20.	डीएल/937404	मैसर्स प्रेमसैल टेक्नोलोजी प्रा. लि.	01.12.2008
21.	डीएल/937222	मैसर्स पनाल्फा ऑटोमोटिव प्रा. लि.	01.07.2008
22.	डीएल/31977	मैसर्स राहुल कपूर एण्ड एसोसिएट्स	11.05.2005
23.	डीएल/935357	मैसर्स आर.एफ.एस. इण्डिया टेलिकॉम प्रा. लि.	01.10.2007
क्रम सं.	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
क्षेत्र : देहरादून (उत्तराखण्ड)			
24.	यूके/26000	मैसर्स होटल आरती इण्टरप्राइसिस	14.12.2001
25.	यूके/26082	मैसर्स महालक्ष्मी इण्टरप्राइसिस	21.11.2002
26.	यूके/26087	मैसर्स स्कूलर्स मैस	12.12.2002
27.	यूके/32538	मैसर्स समान्ता फैब्रिकेटर्स	27.03.2003
28.	यूके/32576	मैसर्स टी.एस. पुण्डीर	12.06.2003
29.	यूके/33713	मैसर्स डाइसेस्टर मिटीगेशन एण्ड मैनेजमेंट सेंटर	24.04.2006
30.	यूके/34370	मैसर्स उत्तराखण्ड भारत स्काऊट एण्ड गाइड	18.02.2008
31.	यूके/32540	मैसर्स मनोज आर्ट सर्विसिस	27.03.2003
32.	यूके/32541	मैसर्स मिनी इलेक्ट्रीकलस एण्ड मेकैनिक्लस वर्क्स	27.03.2003
33.	यूके/35028	मैसर्स उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी वेतन बोगी सहकारी समिति लिमिटेड	13.08.2008
34.	यूके/25977	मैसर्स डालमिया रिसोर्ट्स इण्टरनेशनल (हिल्स) प्राइवेट लिमिटेड	11.07.2001
35.	यूके/26016	मैसर्स दि जॉन मार्टेयन मेमोरियल ट्रस्ट	08.03.2002
36.	यूके/26071	मैसर्स चन्द्रशेखर ऑटोमोबाइल	16.10.2002
37.	यूके/32757	मैसर्स पी.बी. सक्सैना कान्स्ट्रक्टर	24.12.2003
38.	यूके/32769	मैसर्स के.पी. मलिक	03.01.2004
39.	यूके/35221	मैसर्स इन्फिनिट वाटर शोल्डरान्स प्राइवेट लिमिटेड	11.02.2009
40.	यूके/26004	मैसर्स सैम टूर एण्ड ट्रेवल्स	08.01.2002
41.	यूके/32552	मैसर्स नूरुल नवी खान	25.04.2003
42.	यूके/32611	मैसर्स सृष्टि सेल्स	21.08.2003
43.	यूके/32644	मैसर्स अनिल कुमार शर्मा	03.12.2003
44.	यूके/32646	मैसर्स अरविंद दत्त शर्मा	03.12.2003
45.	यूके/32648	मैसर्स विपिन बिहारी सिंह	03.12.2003
46.	यूके/32656	मैसर्स हरि सिंह भंडारी	03.12.2003
47.	यूके/32658	मैसर्स कमलेशवरी प्रसाद	03.12.2003
48.	यूके/32660	मैसर्स मेहमूद अली खान	03.12.2003

49.	यूके/32661	मैसर्स मनेन्दर शर्मा	03.12.2003
50.	यूके/32662	मैसर्स मिथिलेश कुमार मिश्रा	03.12.2003
51.	यूके/32664	मैसर्स नन्द किशोर पाण्डे	03.12.2003
52.	यूके/32667	मैसर्स राजा राम	03.12.2003
53.	यूके/32669	मैसर्स राजेन्द्र पाण्डे	03.12.2003
54.	यूके/32671	मैसर्स राम बदन सिंह	03.12.2003
55.	यूके/32675	मैसर्स सुनील कुमार शर्मा	03.12.2003
56.	यूके/32676	मैसर्स सुरेश कुमार शर्मा	03.12.2003
57.	यूके/32677	मैसर्स उमा प्रकाश निशाद	03.12.2003
58.	यूके/32697	मैसर्स समारु राम केवट	03.12.2003
59.	यूके/32698	मैसर्स राज किशोर सिंह	03.12.2003
60.	यूके/32699	मैसर्स प्रकाश नारायण तिवारी	03.12.2003
61.	यूके/32706	मैसर्स लखपत सिंह	03.12.2003
62.	यूके/32708	मैसर्स श्री राम सिंह	03.12.2003
63.	यूके/32709	मैसर्स विजय शंकर मिश्रा	03.12.2003
64.	यूके/32710	मैसर्स विनय मोहन शर्मा	03.12.2003
65.	यूके/32711	मैसर्स विनोद कुमार	03.12.2003
66.	यूके/32712	मैसर्स यशवंत सिंह भंडारी	03.12.2003
67.	यूके/32713	मैसर्स गणेश मेहतो	03.12.2003
68.	यूके/32714	मैसर्स हासिब खान	03.12.2003
69.	यूके/32715	मैसर्स हेम प्रकाश तिवारी	03.12.2003
70.	यूके/32716	मैसर्स रेवती प्रकाश	04.12.2003
71.	यूके/32717	मैसर्स राजू सिंह	04.12.2003
72.	यूके/32718	मैसर्स राजेन्द्र कुमार शर्मा	04.12.2003
73.	यूके/32719	मैसर्स प्रवीन कुमार शर्मा	04.12.2003
74.	यूके/32720	मैसर्स विनोद कुमार शर्मा	04.12.2003
75.	यूके/32722	मैसर्स सत्य प्रकाश शर्मा	03.12.2003
76.	यूके/32890	मैसर्स इन्सटिट्यूट ऑफ अकाउंटिंग स्टडिज	13.05.2004

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर अधिनियम को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से लागू करते हैं ।

एस. के. खन्ना
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
दिल्ली व उत्तराखण्ड

चेन्नै-600014, दिनांक 19 अप्रैल 2010

सं. क.भ.नि./रा.कार्या./अ.कें.आ. (त.नाडु एवं केरल)/मि.सं. टी.एन./01/2010--

जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोजताओं ने जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है (कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952) 1952 का 19 (की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहा है जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार / केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है , के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची - 1। की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है (जैसा कि संलग्न अनुसूची एक में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है) ।

सं. क.भ.नि./रा.कार्या./अ.कें.आ. (त.नाडु एवं केरल)/मि.सं. टी.एन./01/2010--

सा.का. जहाँ अनुसूची - 1 में उल्लिखित नियोजताओं ने (जिसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का नियम 19) की धारा 17 की उप धारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित विच्छेदी तारीख से प्रभावी तिथि से उक्त स्थापना को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , चेन्नै ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है , तीन वर्ष की अवधि के लिए संचालन को छूट प्रदान कर दी गयी है ।

अनुसूची - II

1. उक्त स्थापना के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात् नियोक्ता कहा गया) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट ऐसी विवरणियों संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजेंगे तथा ऐसी राशि रखेंगे तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेंगे ।
2. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (2 क) के खण्ड (क) के अंतर्गत समय - समय पर निर्दिष्ट ऐसे निरीक्षण प्रभार प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भुगतान करेंगे ।
3. लेखाओं का रखरखाव , रिटर्न प्रस्तुत करना , बीमा किस्तों का भुगतान , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार के भुगतान सहित सामूहिक बीमा योजना में सम्मिलित प्रशासन संबंधी सभी व्ययों को नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा ।
4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुमोदित तथा यथासंशोधित एवं अधिकांश कर्मचारियों की भाषा में उसके प्रमुख बातों के अनुवाद सहित सामूहिक बीमा योजना के नियमों की प्रति स्थापना के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे ।
5. यदि कोई कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापना की भविष्य निधि के पहले से ही सदस्य है और उनकी स्थापना में नियोजित किया जाता है नियोक्ता उन्हें तत्काल सामूहिक बीमा योजना का सदस्य बनाकर भारतीय जीवन बीमा निगम को उसकी आवश्यक किस्त का भुगतान करेंगे ।
6. यदि उक्त योजना के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में वृद्धि की जाती है तो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों में वृद्धि की व्यवस्था करेंगे जिसमें उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से भी सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ अधिक अनुकूल होंगे ।
7. सामूहिक बीमा योजना में निहित किसी बात के होते हुए भी यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर योजना के अंतर्गत देय राशि कर्मचारियों को उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त करने पर देय राशि से कम हो तो नियोक्ता , शेष भुगतान राशि कर्मचारी के नामित(यों) विधिक वारिस (सों) को हरजाने के रूप में भुगतान करेंगे ।
8. संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना सामूहिक बीमा योजना के प्रावधानों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा तथा जहाँ किसी भी संशोधन से कर्मचारी के पक्ष में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को उनका दृष्टिकोण समझाने का यथोचित अवसर देंगे ।
9. अतः किसी कारणवश उक्त स्थापना के नियोक्ता भारतीय जीवन बीमा निगम के सामूहिक बीमा योजना के , जिसको उक्त स्थापना द्वारा पहले से अपनाया गया है , के अधीन नहीं रहते और योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को किसी भी तरह से कम किए जाने पर छूट को रद्द किया जा सकता है ।
10. यदि बिना किसी कारण के भारतीय जीवन बीमा द्वारा नियत तिथि के भीतर नियोक्ता बीमा किस्त आदि का भुगतान न कर सके तथा पॉलिसी समाप्त की जाए तो छूट को रद्द किया जा सकता है ।
11. यदि नियोक्ता द्वारा बीमा किस्त के भुगतान में चूक होने पर मृत सदस्य जो उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त किया जा सकता था परंतु छूट देने के कारण उसके नामित(यों) , विधिक वारिस(सों) को बीमा लाभों के भुगतान का दायित्व नियोक्ता का होगा ।
12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त सदस्य की मृत्यु होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम मृत सदस्य के नामित (यों) तथा विधिक वारिस (सों) जो बीमाकृत राशि के हकदार है को उस राशि को तथा किसी भी हाल में सभी प्रकार से पूर्ण दावों के प्राप्त होने के एक माह के भीतर शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें ।

एन. ए. नायर

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कृते तथा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली

अनुसूची (I)

क्रम सं.	पूर्व अधिसूचना नंबर तथा दिनांक	क्षे.का. / उ.क्षे.का.	कोड नंबर टी.एन.	स्थापना का नाम	छूट की अवधि	
					से	को
1	2	3	4	5	6	7
1.	सं. 2/1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/1357 दिनांक : 20.02.2008	क्षे.का., चेन्नै	49949	हेल्ला इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड चेन्नै-32	01.08.2009	31.07.2012
2.	सं. 2/1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/5419 दिनांक : 09.03.2007	क्षे.का., चेन्नै	49760	नौवेय मेडिकमेंट प्राइवेट लिमिटेड चेन्नै-35	01.06.2008	31.05.2011
3.	--	क्षे.का., चेन्नै	50279	मेंपल्स ई. एस. एम. टेकनॉलाजिस लिमिटेड चेन्नै-96	01.05.2005 01.05.2008	30.04.2008 30.04.2011
4.	--	क्षे.का., चेन्नै	31732	त्रैये फॉरवर्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै-1	01.02.2006 01.02.2009	31.01.2009 31.01.2012
5.	सं. 2/1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/25 दिनांक : 02.04.2003	क्षे.का., चेन्नै	12284	सुभा श्री टूल्स चेन्नै-96	01.01.2005 01.01.2008	31.12.2007 31.12.2010
6.	सं. 2/1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/25 दिनांक : 02.04.2003	क्षे.का., चेन्नै	40534	रिजिड हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड चेन्नै-10	01.02.2005	31.01.2008
7.	--	क्षे.का., चेन्नै	40534 बी	रिजिड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड चेन्नै-10	01.02.2002 01.02.2005	31.01.2005 31.01.2008
8.	सं. 2/1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/857 दिनांक : 04.09.2001	क्षे.का., चेन्नै	23447	इंटरप्रेयट सर्विसेस लिमिटेड चेन्नै-1	24.06.2006	23.06.2009
9.	सं. 2/1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/1878 दिनांक : 12.01.2004	क्षे.का., चेन्नै	36638	नेशनल ट्रस्ट हॉउसिंग फाइनान्स लिमिटेड चेन्नै-2	24.06.2006	23.06.2009
10.	सं. 2/1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/25 दिनांक : 02.04.2003	क्षे.का., चेन्नै	26462	पैनियर सर्विसेस चेन्नै-1	01.01.2005 01.01.2008	31.12.2007 31.12.2010
11.	--	क्षे.का., चेन्नै	36332	एस. ए. ए. जी. आर. आर. इंफ्रा लिमिटेड चेन्नै	01.10.2006	30.09.2007
12.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/1357 दिनांक : 22.03.2008	क्षे.का., कोयम्बतूर	16638	जी प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बतूर	01.06.2009	31.05.2012
13.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	क्षे.का., कोयम्बतूर	10247	प्रचिधि स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड	01.12.2008	30.11.2011

1	2	3	4	5	6	7
14.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	क्षे.का., कोयम्बतूर	1097	विजईस्वरी टेक्सटाईल्स लिमिटेड	24.06.2009	23.06.2012
15.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	क्षे.का., कोयम्बतूर	11467	विजयराजा एण्ड को. कोयम्बतूर	01.03.2009	28.02.2012
16.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	क्षे.का., कोयम्बतूर	28355	नीलगिरि डायरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड	01.01.2009	31.12.2011
17.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	क्षे.का., कोयम्बतूर	11075	बी. आर. फौन्ड्रीस कोयम्बतूर	01.01.2009	31.12.2011
18.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	क्षे.का., कोयम्बतूर	8842	सुपर स्पिनिंग मिल्स, डी यूनिट	04.06.2009	03.06.2012
19.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	क्षे.का., कोयम्बतूर	2686	नीलगिरिस को-ऑप. मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड	24.06.2009	23.06.2012
20.	--	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	33177	जानकी कॉटन मिल्स लिमिटेड	01.08.2006	31.07.2009
21.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I दिनांक : 22.11.2000	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	13548	संकर हायर सैकेण्डरी स्कूल	24.06.2009	23.06.2012
22.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/1417 दिनांक : 29.02.2004	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	33309	सुब्बुराज स्पिनिंग मिल्स	24.06.2009	23.06.2012
23.	--	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	37284	एस. एस. डी. स्पिनिंग मिल्स	01.01.2009	31.12.2011
24.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	24007	सय्यद कॉटन मिल्स	01.05.2009	30.04.2012
25.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/860 दिनांक : 04.09.2001	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	20106	टूटीकोरिम अलकेली केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	24.06.2009	23.06.2012
26.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1468 दिनांक : 18.03.2008	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	24872	फोर्ड ऑटो मोबाईल्स	24.06.2009	23.06.2012
27.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/37265 दिनांक : 16.03.1999	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	1171	दिनमलर तिरुनेलवेली	01.04.2009	31.03.2012

1	2	3	4	5	6	7
28.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	2862	डी. सी. डब्ल्यू लिमिटेड टूटीकोरिन	24.06.2009	23.06.2012
29.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1468 दिनांक : 18.03.2008	उप क्षे. का., तिरुनेलवेली	6293	एस. जी. जयराज नाडार एण्ड सन्स	24.06.2009	23.06.2012
30.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/31059 दिनांक : 11.03.1999	उप क्षे. का., पुदुचेरी	263	ऑरो इलेक्ट्रॉनिक्स	01.11.1999 01.11.2002	31.10.2002 31.10.2004
31.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/991 दिनांक : 07.05.2002	उप क्षे. का., पुदुचेरी	155	द फ्लेवर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
32.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/747 दिनांक : 29.08.2001	उप क्षे. का., पुदुचेरी	656	द प्रिंसम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	24.06.2006 24.06.2009	23.06.2009 23.06.2012
33.	--	उप क्षे. का., पुदुचेरी	1261	इलैक्ट्रो ऑटोमेशन	01.03.2006 01.03.2009	28.02.2009 29.02.2012
34.	--	उप क्षे. का., सेलम	16260	इंसन रेयरोल लिमिटेड	01.03.1994 01.03.1997 01.03.2000 01.03.2003 01.03.2006 01.03.2009	28.02.1997 29.02.2000 28.02.2003 28.02.2006 28.02.2009 29.02.2012
35.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/1337 दिनांक : 03.04.1993	उप क्षे. का., सेलम	21240	पोण्णी शुगर्स (ईरोड) लिमिटेड, तिरुचेनगोड	01.12.1993 01.12.1996 01.12.1999 01.12.2002 01.12.2005 01.12.2008	30.11.1996 30.11.1999 30.11.2002 30.11.2005 30.11.2008 30.11.2011
36.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/399 दिनांक : 08.06.2004	क्षे. का., मदुरै	24861	बी टू मैचस प्राइवेट लिमिटेड, सिक्कासी	01.02.2007	31.01.2010
37.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	क्षे. का., मदुरै	11402	अरुण मैच वर्क्स तिरुतंगल	01.03.2009	29.02.2012
38.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/719 दिनांक : 22.02.2009	उप क्षे. का., तिरुची	44159	पेरियार सेंटनरी गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज तंजावूर	01.12.2006	30.11.2009
39.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/2872 दिनांक : 22.11.2000	उप क्षे. का., तिरुची	27065	शन्मुगा प्रेसिशन फोरजिंग तंजावूर टी.एन./टी.आर./ 27065	24.06.2000 24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2003 23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012

1	2	3	4	5	6	7
40.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-1/41 दिनांक : 28.01.1998	उप क्षे. का., तिरुची	27964	पेरयार पनियम्माल कॉलेज, कॉलेज फॉर टेक्नॉलॉजी फॉर विमन तंजावूर	01.07.1999 01.07.2002 01.07.2005 01.07.2009	30.06.2002 30.06.2005 30.06.2009 30.06.2012
41.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/385 दिनांक : 25.06.2007	क्षे. का., ताम्बरम	11044	ग्रोकोन इन्स्ट्रुमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड	01.03.2006 01.03.2009	28.02.2009 29.02.2012
42.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	क्षे. का., ताम्बरम	26587	रफीसन्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै	01.07.2000 01.07.2003 01.07.2006 01.07.2009	30.06.2003 30.06.2006 30.06.2009 30.06.2012
43.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-1/1725 दिनांक : 23.06.1999	क्षे. का., ताम्बरम	30834	मेरकुरी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	01.09.2001 01.09.2004 01.09.2007	31.08.2004 31.08.2007 31.08.2010
44.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	क्षे. का., ताम्बरम	23291	कस्तूरी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै	01.11.2002 01.11.2005 01.11.2008	31.10.2005 31.10.2008 31.10.2011
45.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-1/4332 दिनांक : 17.09.1999	क्षे. का., ताम्बरम	31487	फैन प्वाइंट इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	01.07.2001 01.07.2004 01.07.2007	30.06.2004 30.06.2007 30.06.2010
46.	—	क्षे. का., ताम्बरम	61256	बाइस्अन टेक्निकल एण्ड सर्विसिस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै	01.06.2009	31.05.2012
47.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 09.03.2007	उप क्षे. का., के.के.	14059	मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, मंजेरी	01.01.2009	31.12.2011
48.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 09.03.2007	उप क्षे. का., के.के.	14431	मूवल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पेरितलमहिना	01.03.2009	29.02.2012
49.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/1357 दिनांक : 20.03.2008	उप क्षे. का., के.के.	14607	येस मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोषिकोड	01.04.2009	31.03.2012
50.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/1357 दिनांक : 20.02.2008	उप क्षे. का., के.के.	17355	कोमट्रस्ट चेरिटेबल ट्रस्ट आई हास्पिटल	01.08.2009	31.07.2012
51.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/1357 दिनांक : 20.03.2009	उप क्षे. का., के.के.	17704	मार्क मोटर्स	01.04.2009	31.03.2012
52.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 09.03.2007	उप क्षे. का., के.के.	14404	चेतना फार्मास्यूटिकल्स	01.03.2009	29.02.2012

1	2	3	4	5	6	7
53.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/719 दिनांक : 22.01.2009	उप क्षेत्र. का., के.के.	14452	रोशनी पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड	01.07.2009	30.06.2012
54.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 09.03.2007	उप क्षेत्र. का., के.के.	टी एन/ 17707	फॉरचून इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड	01.03.2009	29.02.2012
55.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/1357 दिनांक : 20.02.2008	उप क्षेत्र. का., के.के.	17167	हैसन हेरिटेज	01.07.2009	30.06.2012
56.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/719 दिनांक : 22.01.2009	उप क्षेत्र. का., के.सी.	19372	एफ. सी. आई. टेकनॉलॉजी सर्विसिस लिमिटेड	01.04.2008	31.03.2011
57.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 09.03.2007	उप क्षेत्र. का., के.सी.	15962	पी. एल. लॉरन्स एण्ड को.	01.01.2009	31.12.2011
58.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/719 दिनांक : 22.01.2009	उप क्षेत्र. का., के.सी.	21403	पॉपुलर मोटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	01.05.2009	30.04.2012
59.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/719 दिनांक : 22.01.2009	उप क्षेत्र. का., के.सी.	12130	चिनमया विद्यालया	01.02.2009	31.01.2012
60.	--	उप क्षेत्र. का., के.सी.	19159	रिया ट्रेवल एण्ड टूरर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	01.04.2009	31.03.2012
61.	--	उप क्षेत्र. का., के.सी.	24649	डेन्टाकेयर डेंटल लैब प्राइवेट लिमिटेड	01.07.2009	30.06.2012
62.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	15297	ईस्टर्न रीट्रीड्स प्राइवेट लिमिटेड	01.05.2009	30.04.2012
63.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	21456	पियर्स लेसली सर्वेयर्स एण्ड अससर्स लिमिटेड	01.07.2009	30.06.2012
64.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	15608	कास्टर मार्केटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	01.06.2009	31.05.2012
65.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	15594	फ्यूचुरा मेडिकल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	01.03.2007	28.02.2010
66.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र. का., के.सी.	15329	सिनसैट प्रापरटीस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	01.05.2008	30.04.2011

1	2	3	4	5	6	7
67.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	13483	ट्रैको इलेक्ट्रॉनिक्स कापोरेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	01.04.2008	31.03.2011
68.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	9981-सी	येरनाकुलम रीजनल को-ऑप. मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड	01.07.2007	30.06.2010
69.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	4640	खादी ग्रामोद्योग भवन	01.06.2007	31.05.2010
70.	--	उप क्षेत्र. का., के.सी.	13784	अर्जुना नैचरल एक्सट्रैक्ट्स लिमिटेड	01.07.2006 01.07.2009	30.06.2009 30.06.2012
71.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 09.03.2007	क्षेत्र. का., टी.वी.एम.	12665	एशियानेट सैटीलैट कम्युनिकेशन लिमिटेड	24.06.2006	23.06.2012
72.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/719 दिनांक : 22.02.2009	क्षेत्र. का., टी.वी.एम.	1914	केरला स्टेट को-ऑपरेटिव एग्रिकलचरल एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड	24.06.2009	23.06.2012
73.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/719 दिनांक : 22.02.2009	क्षेत्र. का., टी.वी.एम.	12623	ग्रेट इण्डिया टूर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	01.11.2008	31.10.2011
74.	--	क्षेत्र. का., टी.वी.एम.	22384	शस्टन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	01.12.2006	30.11.2009
75.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/719 दिनांक : 22.01.2009	उप क्षेत्र. का., के.एन.आर.	11913	प्राइम वीनर्स लिमिटेड	01.02.2009	31.01.2012
76.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	3395	टी. ई. एल. के. कैटीन इम्प्लाइस को-ऑपरेटिव सोसायटी, कोची	01.11.2009	31.10.2012
77.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	2551	ट्रान्सफार्मर्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स केरला प्राइवेट लिमिटेड, कोची	01.11.2009	31.10.2012
78.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/719 दिनांक : 22.02.2009	उप क्षेत्र. का., के.सी.	1958	आनंद वाटर मीटर मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कोची	01.12.2009	30.11.2012
79.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.02.2008	उप क्षेत्र. का., के.सी.	13367	कनकोर इंफ्रीडियन्ट्स लिमिटेड, कोची	01.10.2009	30.09.2012
80.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक : 31.03.2007	उप क्षेत्र. का., के.सी.	13444	टाटा सेरामिक्स लिमिटेड, कोची	01.01.2009	31.12.2011

1	2	3	4	5	6	7
81.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कॉ.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2007/1357 दिनांक : 22.03.2008	उप क्षेत्र. का., के.के.	14054	अल शिफा हास्पिटल (प्राइवेट) लिमिटेड, मलप्पुरम	01.04.2009	31.03.2012
82.	--	क्षेत्र. का., चेन्नै	54133	टोटल मैरिटैम डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै	01.09.2009	31.08.2012
83.	--	क्षेत्र. का., चेन्नै	54221	एरिया केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै-28	01.09.2009	31.08.2012
84.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/719 दिनांक : 22.01.2009	क्षेत्र. का., चेन्नै	49557	नाविया मार्केट्स लिमिटेड, चेन्नै-34	01.03.2008	28.02.2011
85.	--	क्षेत्र. का., चेन्नै	49258	ए. वी. टी. इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै-8	01.09.2007	31.08.2010
86.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/1357 दिनांक : 20.02.2008	क्षेत्र. का., चेन्नै	48453	ई. जी. इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै-34	01.10.2009	30.09.2012
87.	--	क्षेत्र. का., चेन्नै	53125	ई. टी. ए. टेकनोपार्क लिमिटेड, चेन्नै-4	01.07.2008	30.06.2011
88.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कॉ.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2008/ दिनांक : 12.09.2009	क्षेत्र. का., चेन्नै	36693	केररी रिलैएवल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	01.09.2009	31.08.2012
89.	--	क्षेत्र. का., चेन्नै	54199	ग्रीनर्जी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै-28	01.09.2009	31.08.2012
90.	आ.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कॉ.आ./ व.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	क्षेत्र. का., मदुरै	4825	राज मैच वर्क्स, शिवकाशी	01.06.2006 01.06.2009	31.05.2009 31.05.2012
91.	--	क्षेत्र. का., मदुरै	1155ए	श्री कर्पगाम्बाल मिल्स लिमिटेड (बीविंग यूनिट), राजपालयम	01.04.2006	31.03.2009
92.	--	क्षेत्र. का., मदुरै	24355ए	सैल जगत माडर्न फाइल्स एमबॉसर्स, शिवकाशी	01.11.2006	31.10.2009
93.	--	क्षेत्र. का., मदुरै	24355	सेल जगत प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, शिवकाशी	01.11.2006	31.10.2009
94.	--	क्षेत्र. का., मदुरै	58305	राजपालयम स्पिन्स प्राइवेट लिमिटेड, राजपालयम	01.07.2009	30.06.2012
95.	--	क्षेत्र. का., मदुरै	57917	जे.वै. आर.पी. इंडस्ट्रीज, मदुरै	01.08.2007	31.07.2010
96.	--	क्षेत्र. का., मदुरै	24491	दिग्विजय पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड, श्रीविल्लीपुत्तूर	01.01.2009	31.12.2011

1	2	3	4	5	6	7
97.	--	क्षे.का., मद्रुरै	37685	श्री वेंकटचलपति स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, राजपालयम	01.08.2009	31.07.2012
98.	आं.प्र/क.भ.नि.सं/अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	क्षे.का., मद्रुरै	20074	वी टू मैच इंडस्ट्रीस, तिरुवंगल	01.02.2007	31.01.2010
99.	आं.प्र/क.भ.नि.सं/अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	क्षे.का., मद्रुरै	42052	श्री माता स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड, दिण्डिगल	24.06.2006	23.06.2009
100.	आं.प्र/क.भ.नि.सं/अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	क्षे.का., मद्रुरै	2649ए	अरसन एजेन्सीज़, शिवकाशी	01.02.2007	31.01.2010
101.	आं.प्र/क.भ.नि.सं/अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	क्षे.का., मद्रुरै	2649	अरसन मैच इंडस्ट्रीज़, शिवकाशी	01.02.2004 01.02.2007	31.01.2007 31.01.2010
102.	आं.प्र/क.भ.नि.सं/अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	क्षे.का., मद्रुरै	29394	रीताभी मिशन हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मद्रुरै	01.08.2008	31.07.2011
103.	--	उ.क्षे.का. तिरुनेलवेली	16786ए	काल पब्लिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, तिरुनेलवेली	01.07.2007	30.06.2010
104.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/554 दिनांक 29.12.2004	क्षे.का., मद्रुरै	187	मद्रुरा कोट्स (प्राईवेट) लिमिटेड, टूटिकोरिन	24.06.2009	23.06.2012
105.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1424 दिनांक 29.12.2004	उप क्षे का, पुदुचेरी	1197	लीयो फास्टनर्स, पुदुचेरी	01.05.2006	30.04.2009
106.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1424 दिनांक 29.12.2004	उप क्षे का, पुदुचेरी	703	सोनी सैटिफिक इंडिया, पुदुचेरी	01.09.2006	31.08.2009
107.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1878 दिनांक 21.04.2004	उप क्षे का, अम्बतूर	19263	विवकोनवेयर्स, चेन्नै-49	01.03.2007	28.02.2010
108.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1878 दिनांक 21.04.2004	उप क्षे का, अम्बतूर	16772	अम्बतूर क्वाटिंग लिमिटेड, चेन्नै-58	01.12.2003 01.12.2006	30.11.2006 30.11.2009
109.	आं.प्र/क.भ.नि.सं/अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 22.01.2009	उप क्षे का, अम्बतूर	17352	कोरटिका मैनुफैक्चरिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, थिरुमाजीसाई	01.12.2009	30.11.2012
110.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1417 दिनांक 29.12.2004	उप क्षे का, अम्बतूर	6993	एम.आई.एल. इंडस्ट्रीज़, अम्बतूर	01.08.2006 01.08.2009	31.07.2009 31.07.2011

1	2	3	4	5	6	7
111.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	5738	आरक्केस नेशनल इंजीनियरिंग एण्ड फाउन्डरी को., अम्बतूर	01.03.2008	28.02.2011
112.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 21.02.2009	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	10868	केब्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, अम्बतूर	01.10.2009	30.09.2012
113.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/2009/5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	35738	आलफा स्प्रिंग्स चेन्नै (प्राइवेट) लिमिटेड अम्बतूर	01.03.2009	28.02.2012
114.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	36903	आलका रबर एण्ड स्प्रिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, अम्बतूर	01.05.2007	30.04.2010
115.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1878 दिनांक 21.04.2004	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	5646	क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अम्बतूर	01.02.2007	31.01.2010
116.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	65445	कैंटरपिल्लर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, तिरुवल्लूर	01.01.2007	31.12.2009
117.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1878 दिनांक 21.04.2004	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	17267	जन बालाजी कंट्रोल गियर्स प्राइवेट लिमिटेड, अम्बतूर	01.03.2004 01.03.2007	28.02.2007 28.02.2010
118.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	7145	डोमोर टूल्स एण्ड एससरीज (प्राइवेट) लिमिटेड, अम्बतूर	01.03.2009	29.02.2012
119.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	4171	अल्ट्रा मरैन एण्ड पिरामेंट्स लिमिटेड, अम्बतूर	01.08.2009	31.07.2012
120.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	18292	के लैट इंडस्ट्रीज, अम्बतूर	01.10.2008	30.09.2011
121.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	31107	सधर्न एग्रो इम्प्लीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अम्बतूर	01.03.2007	28.02.2010
122.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ 719 दिनांक 12.09.2009	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	4725	बक्स इंडिया लिमिटेड, पाडी	01.06.2007	31.05.2010
123.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/ दिनांक 12.09.2009	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	5374	प्रॉडक्टिविटी एलिमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अम्बतूर	01.08.2009	31.07.2012
124.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 31.03.2007	उप क्षेत्र का, अम्बतूर	6717	देवेन्द्र एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अम्बतूर	01.02.2007	31.01.2010

1	2	3	4	5	6	7
125.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1357 दिनांक 20.02.2008	क्षे का, ताम्बरण	23901-क्यू	वल्लिअप्पे इंजीनियरिंग कॉलेज, कातांकलतूर	01.03.2004 01.03.2007	28.02.2007 28.02.2010
126.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 09.03.2007	उप क्षे का, सेलम	21052	रिनौन्ड ऑटो प्रॉडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, होसूर	01.06.2006 01.06.2009	31.05.2009 31.05.2012
127.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/50 दिनांक 10.12.2005	उप क्षे का, सेलम	47329	अग्रिम ऑटोमैक (प्राइवेट) लिमिटेड, होसूर	01.07.2007	30.06.2010
128.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1424 दिनांक 29.12.2004	उप क्षे का, सेलम	47350	राजा क्राउन्स एण्ड कैन्स प्राइवेट लिमिटेड, होसूर	01.01.2007 01.01.2010	31.12.2009 31.12.2012
129.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/1897 दिनांक 27.01.2004	क्षे.का. चेन्नै	2699	टी.यू.सी.एस. लिमिटेड त्रिप्लिकोन, चेन्नै-5	01.04.2004 01.04.2007	31.03.2007 31.03.2010
130.	--	क्षे.का. चेन्नै	7658	दुर्गाबाई देशमुख जनरल हॉस्पिटल्स एण्ड रिसर्च सेंटर, चेन्नै-28	01.04.2005 01.04.2008	31.03.2008 31.03.2011
131.	सं. / /1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट I/5419 दिनांक 09.03.2007	क्षे.का. चेन्नै	2239	स्टार टॉकोज़, चेन्नै-5	01.03.2009	29.02.2012
132.	--	क्षे.का. चेन्नै	30775	सुस्रुता एजेन्सीज़ (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड, टी. नगर	01.01.2006 01.01.2009	31.12.2008 31.12.2011
133.	--	क्षे.का. चेन्नै	22232	टेकनोमेड इलेक्ट्रॉनिक्स, चेन्नै-96	01.04.2003 01.04.2006 01.04.2009	31.03.2006 31.03.2009 31.03.2012
134.	--	क्षे.का. चेन्नै	52461	काल रेडियो लिमिटेड, चेन्नै-41	01.07.2007	30.06.2010
135.	--	क्षे.का. चेन्नै	23476	डी.के.के. जैन प्राइमरी स्कूल, चेन्नै-33	01.04.2003 01.04.2006	31.03.2006 28.02.2009
136.	--	क्षे.का. चेन्नै	52460	साउथ एशिया एफ.एम. लिमिटेड, कोटिवाक्यम चेन्नै-41	01.07.2007	30.06.2010
137.	--	क्षे.का., चेन्नै	31052	पारापौंट शिपिंग सर्विसेस चेन्नै-1	01.03.2006 01.03.2009	28.02.2009 29.02.2012
138.	--	क्षे.का., चेन्नै	51185	सान्टेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै-14	01.08.2006	31.07.2007
139.	--	क्षे.का., चेन्नै	50100	भारत टेक्नालोजिस ऑटो कम्पोनेन्ट्स, लिमिटेड, चेन्नै-2	01.09.2004	31.08.2005

1	2	3	4	5	6	7
140.	--	क्षे.का., चेन्नै	22833	टैक्सल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नै	01.08.2003 01.08.2006	31.07.2006 31.07.2009
141.	--	क्षे.का., चेन्नै	48573	ऑपस सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नै-10	01.10.2007	30.09.2010
142.	सं. 1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/1025 दिनांक 02.08.2002	क्षे.का., चेन्नै	30230	लीप फारवर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नै-1	01.03.2004 01.08.2007	28.02.2007 28.02.2010
143.	सं. 1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/554 दिनांक 14.07.2004	क्षे.का., चेन्नै	16536	सान्को ट्रांस लिमिटेड चेन्नै	24.06.2006	23.06.2009
144.	--	क्षे.का., चेन्नै	23140	ग्रेविटी डाईकास्टर्स प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नै-96	01.07.1996 01.07.1999 01.07.2002 01.07.1005 01.07.2006	30.06.1999 30.06.2002 30.06.2005 30.06.2008 30.06.2011
145.	--	क्षे.का., चेन्नै	52826	मद्रास सीमेंट्स लिमिटेड चेन्नै-4	01.07.2007	30.06.2010
146.	--	क्षे.का., चेन्नै	26338	ट्रैमेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, चेन्नै-18	01.02.2007	31.01.2009
147.	--	क्षे.का., चेन्नै	26338-ए	स्फैरा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नै-18	01.02.2007	31.01.2009
148.	--	क्षे.का., चेन्नै	16254	डा. अग्रवाल आई हास्पिटल चेन्नै-86	01.11.2007	31.10.2010
149.	--	क्षे.का., चेन्नै	50219	एस 4 सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नै-14	01.03.2009 01.03.2006	28.02.2006 29.02.2008
150.	सं. 1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/1878 दिनांक 12.01.2004	क्षे.का., चेन्नै	16445	इंटरनेशनल सर्विसेस चेन्नै-1	24.06.2006	23.06.2009
151.	--	क्षे.का., चेन्नै	52563	चोला इश्योरेंस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड चेन्नै-1	01.06.2007	31.05.2010
152.	--	क्षे.का., चेन्नै	23200-ए	चोलमण्डलम एम.एस. रिस्क सर्विसेस लिमिटेड चेन्नै-1	01.03.2007	28.02.2010
153.	--	क्षे.का., चेन्नै	52696	जी. जी. एल. लाईन प्राईवेट लिमिटेड चेन्नै-1	01.05.2007	31.05.2010
154.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कें.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक 09.03.2007	उप क्षे.का., तिरुनेलवेली	33192	राजपालयम टेक्सटाइल्स पेरुपालपट्टी	01.03.2009	29.02.2012

1	2	3	4	5	6	7
155.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक 09.03.2007	उप क्षेत्र.का., तिरुनेलवेली	33175	पेंगुईन पेपर इण्डस्ट्रिज पेडु	01.04.2009	31.03.2012
156.	--	क्षेत्र.का., मद्रुरै	37515	बाली इण्डस्ट्रिज कप्पालूर	01.02.2008	31.01.2011
157.	--	क्षेत्र.का., मद्रुरै	58122	मल्टीब्राण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, राजपालयम	01.07.2008	30.06.2011
158.	--	क्षेत्र.का., मद्रुरै	29979	मद्रुरै डीसल सेलर एण्ड सर्विसेस, मद्रुरै	01.03.2008	28.02.2011
159.	--	क्षेत्र.का., मद्रुरै	10238	सत्या पैकेजिंग इण्डस्ट्री मद्रुरै	01.04.2008	31.03.2011
160.	--	उप क्षेत्र.का., तिरुनेलवेली	11551-सी	सैंचुरी मैच वर्क्स कोविलपट्टी	01.12.2008	30.11.2011
161.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2009/5419 दिनांक 09.03.2007	उप क्षेत्र.का., तिरुनेलवेली	11551	वेसवेसडी मैच कम्पनी लिमिटेड, कोविलपट्टी	01.04.2009	31.03.2012
162.	सं. 1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-1/5919 दिनांक 09.02.2000	उप क्षेत्र.का., तिरुची	10471	इंडो फ़ैब, तिरुची-15	01.09.1999 01.09.2002 01.09.2005	31.08.2002 31.08.2005 31.08.2009
163.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.सं. 240/2006/5419 दिनांक 31.03.2007	क्षेत्र.का., कोयम्बतूर	16492	द लारंस स्कूल लवडेल, ऊटी	01.09.2008	31.08.2011
164.	--	क्षेत्र.का., ताम्बरम	61785	जे.सी.बी.एल. मार्शल टिम्बर्स, प्राइवेट लिमिटेड, ओरगाडम	01.10.2008	30.09.2011
165.	--	क्षेत्र.का., ताम्बरम	61446	फेडवे इंफॉर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै-32	01.06.2008	31.05.2011
166.	--	क्षेत्र.का., ताम्बरम	61122	मेरिल टेक्नोलाजी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	01.01.2009	31.12.2011
167.	--	क्षेत्र.का., ताम्बरम	60657	कनसीरिया विरगिनिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै-44	01.12.2005 01.12.2008	30.11.2008 30.11.2011
168.	--	क्षेत्र.का., ताम्बरम	60639	टी.बी.एस. लॉजिस्टिक्स सर्विसेस लिमिटेड, चेन्नै-97	01.03.2005 01.03.2008	29.02.2008 28.02.2011
169.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ व.अं./मि.से. 240/2007/1357 दिनांक 20.02.2008	क्षेत्र.का., ताम्बरम	17283	टैटैनियम ग्रान्युलम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, चेन्नै-73	01.06.2008	31.05.2011
170.	सं. 1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-1/28800 दिनांक 01.07.2005	उप क्षेत्र.का., पुदुचेरी	438	पांडिचेरी प्लानिंग अथोरिटी, पुदुचेरी	24.06.2006	23.06.2009

1	2	3	4	5	6	7
171.	--	उप क्षे.का., पुदुचेरी	1430	ऑरो इंजीनियरिंग कम्पनी, पुदुचेरी	01.05.2006	30.04.2009
172.	--	क्षे.का., ताम्बरम	40130	डालन्ट इन्फैन्ट प्रोडक्ट्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ताम्बरम	01.02.2008	31.01.2011
173.	--	क्षे.का., ताम्बरम	61792	यंत्रा फिन्टेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ताम्बरम	01.10.2008	30.09.2011
174.	सं. 1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/991 दिनांक 07.05.2002	उप क्षे.का., पुदुचेरी	452	स्नाम अलॉब्स प्राईवेट लिमिटेड, पुदुचेरी	01.12.2006	30.11.2009
175.	--	उप क्षे.का., पुदुचेरी	255	ऑरोफार्म, पुदुचेरी	01.03.2003 01.03.2006	28.02.2006 28.02.2009
176.	सं. 1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/1424 दिनांक 29.12.2004	उप क्षे.का., पुदुचेरी	982	रविकुमार डिस्टिलर्स लिमिटेड, पुदुचेरी	01.10.2006	30.09.2009
177.	सं. 1959/क.नि.स.बी./ छूट/89/पार्ट-I/18946 दिनांक 09.12.2005	उप क्षे.का., पुदुचेरी	620	सुप्रीम अरामेटेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, पुदुचेरी	01.06.2006	31.05.2009
178.	आं.प्र./क.भ.नि.सं./अ.कै.आ./ द.अं./मि.से. 240/2006/385 दिनांक 25.06.2007	क्षे.का., ताम्बरम	19259	फार्म्स एण्ड गियर्स, चेन्नै-32	01.08.2004 01.08.2007	31.07.2007 31.07.2010

एन. ए. नायर
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
तमिलनाडु एवं केरल

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
CLAIM SECTION

Mumbai, the 16th April 2010

In pursuance of Regulation 14 of the Government Securities Regulations, 2007 made by the Reserve Bank of India under Section 32 of the Government Securities Act, 2006 and published in the Gazette No. 228 of December 1, 2007 the following list of securities lost etc., for the month of **MARCH 2010**, in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just, is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai 400 008.

List

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Nomenclature of the Loan	Security Number	Value in Rs./Grams	In whose name Issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
Gold Bonds 1998	BYSLA 000100	516 grams of Gold	Faqir Chand Bajaj & Rakesh Bajaj	12/06/1993	Faqir Chand Bajaj & Rakesh Bajaj	Order No. 3191 dated 29/03/2010 issued by CGM (Bkg)

A. D. RANE
Asstt. Manager

STATE BANK OF INDIA

Mumbai-400021, the 4th May 2010

NOTICE

Notice is hereby given that the Register of Shareholders of the State Bank of India will be closed for transfer of shares for payment of dividend, if any, for 2009-2010 from Friday, the 11th June, 2010 to Wednesday, the 5th June 2010 (both days inclusive).

O. P. BHATT
Chairman

The 55th Annual General Meeting of Shareholders of State Bank of India will be held at the "Yashwantrao Chavan Centre", General Jagannath Bhosale Marg, Nariman Point, Mumbai-400021 (Maharashtra) on Wednesday, the 16th June, 2010 at 3.30 P.M. for transacting the following business :—

"to receive the Central Board's Report, the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank made up to the 31st March, 2010 and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

O. P. BHATT
Chairman

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Delhi-110052, the 26th March 2010

No. ACC/DL&DL/VC/1(4)/2009/02/80—

S.O.

whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely: -

Sl. No.	Code No.	Name of the establishments	Date of coverage
REGION: DELHI (NORTH)			
1.	DL/18450	M/s Soft Options	01.11.1996
2.	DL/33345	M/s Unisafe International	01.04.2005
3.	DL/27654	M/s Vinod Gautam Sales	01.06.2003
4.	DL/36093	M/s Mobile Creches for Working Mothers' Children	01.04.2007
5.	DL/27560	M/s R.K. Bawta	01.07.2003
REGION: DELHI (SOUTH)			
6.	DL/32234	M/s Delanco Real Estate Pvt. Ltd.	01.09.2005
7.	DL/33708	M/s Calleo Technologies (P) Ltd.	13.12.2005
8.	DL/33865	M/s Geopetrol International Inc.	07.04.2006
9.	DL/31592	M/s Rimari India Pvt. Ltd.	01.09.2004
10.	DL/934823	M/s Magnetic Logistics Pvt. Ltd.	13.04.2007
11.	DL/33818	M/s Innocean Worldwide Communication Pvt. Ltd.	08.02.2006
12.	DL/34154	M/s Hay House Publications (India) Pvt. Ltd.	01.07.2006
13.	DL/935756	M/s Marini SPA India	01.04.2008
14.	DL/32248	M/s M&C Saatchi Communications Pvt. Ltd.	11.11.2005
15.	DL/935820	M/s Anglo American Services Pvt. Ltd.	01.05.2008
16.	DL/937055	M/s High Commission of Republic of Botswana	01.07.2008
17.	DL/31960	M/s Destination of the world Pvt. Ltd.	01.04.2005
18.	DL/937540	M/s H.M. Informatics Pvt. Ltd.	01.02.2009
19.	DL/31908	M/s Faro Business Technologies India Pvt. Ltd.	01.03.2005
20.	DL/937404	M/s Premcell Technology Pvt. Ltd.	01.12.2008
21.	DL/937222	M/s Panalafa Automotive Pvt. Ltd.	01.07.2008
22.	DL/31977	M/s Rahul Kapoor & Associates	11.05.2005
23.	DL/935357	M/s RFS India Telecom Pvt. Ltd.	01.10.2007
REGION: DEHRADUN (UTTARAKHAND)			
24.	UK/26000	M/s Hotel Arti Enterprises.	14.12.2001
25.	UK/26082	M/s Mahalaxmi Enterprises	21.11.2002

26.	UK/26087	M/s Scholars Mes	12.12.2002
27.	UK/32538	M/s Samanta Fabricators	27.03.2003
28.	UK/32576	M/s T.S. Pundir	12.06.2003
29.	UK/33713	M/s Disaster Mitigation & Management Centre	24.04.2006
30.	UK/34370	M/s Uttarakhand Bharat Scout and Guide	18.02.2008
31.	UK/32540	M/s Manoj Art Services	27.03.2003
32.	UK/32541	M/s Mini Electicals and Mechanical Works	27.03.2003
33.	UK/35028	M/s Uttaranchal Rajya Sadak Parivahan Nigam Karmchari Vetan Bhogi Sahakari Samiti Ltd.	13.08.2008
34.	UK/25977	M/s Dalmia Resort International (Hills) Pvt. Ltd.	11.07.2001
35.	UK/26016	M/s The John Martyn Memorial Trust	08.03.2002
36.	UK/26071	M/s Chandrashekar Automobile	16.10.2002
37.	UK/32757	M/s P.B. Saxena Contractor	24.12.2003
38.	UK/32769	M/s K.P. Malik	03.01.2004
39.	UK/35221	Infinite Water Solutions Private Limited.	11.02.2009
40.	UK/26004	M/s Sam Tours and Travels	08.01.2002
41.	UK/32552	M/s Noorul Nabi Khan	25.04.2003
42.	UK/32611	M/s Shrishti Sales	21.08.2003
43.	UK/32644	M/s Anil Kumar Sharma	03.12.2003
44.	UK/32646	M/s Arvind Dutt Sharma	03.12.2003
45.	UK/32648	M/s Bipin Behari Singh	03.12.2003
46.	UK/32656	M/s Hari Singh Bhandari	03.12.2003
47.	UK/32658	M/s Kamleshwari Prasad	03.12.2003
48.	UK/32660	M/s Mahmood Ali Khan	03.12.2003
49.	UK/32661	M/s Manander Sharma	03.12.2003
50.	UK/32662	M/s Mithelesh Kumar Mishra	03.12.2003
51.	UK/32664	M/s Nand Kishore Pandey	03.12.2003
52.	UK/32667	M/s Raja Ram	03.12.2003
53.	UK/32669	M/s Rajendra Pandey	03.12.2003
54.	UK/32671	M/s Ram Badan Singh	03.12.2003
55.	UK/32675	M/s Sunil Kumar Sharma	03.12.2003
56.	UK/32676	M/s Suresh Kumar Sharma	03.12.2003
57.	UK/32677	M/s Uma Prakash Nishad	03.12.2003
58.	UK/32697	M/s Samaru Ram Kevat	03.12.2003
59.	UK/32698	M/s Raj Kishore Singh	03.12.2003
60.	UK/32699	M/s Prakash Narayan Tewari	03.12.2003
61.	UK/32706	M/s Lakhpat Singh	03.12.2003
62.	UK/32708	M/s Shri Ram Singh	03.12.2003
63.	UK/32709	M/s Vijay Shankar Mishra	03.12.2003
64.	UK/32710	M/s Vinay Mohan Sharma	03.12.2003
65.	UK/32711	M/s Vinod Kumar	03.12.2003
66.	UK/32712	M/s Yashwant Singh Bhandari	03.12.2003
67.	UK/32713	M/s Ganesh Mehto	03.12.2003
68.	UK/32714	M/s Hasib Khan	03.12.2003
69.	UK/32715	M/s Hem Prakash Tewari	03.12.2003
70.	UK/32716	M/s Rewati Prasad	04.12.2003
71.	UK/32717	M/s Raju Singh	04.12.2003
72.	UK/32718	M/s Rajendra Kumar Sharma	04.12.2003
73.	UK/32719	M/s Praveen Kumar Sharma	04.12.2003
74.	UK/32720	M/s Vinod Kumar Pandey	04.12.2003
75.	UK/32722	M/s Satya Prakash Sharma	03.12.2003
76.	UK/32890	M/s Institute of Accounting Studies	13.05.2004

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments with effect from the date mentioned against their names.

S. K. KHANNA
Additional Central Provident Fund Commissioner
Delhi & Uttarakhand

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Tamilnadu, the 19th April 2010

No.EPF/SO/ACC(TN&KR)/F.No.TN&KR/01/2009

..... Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule – I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the EPF & MP Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 19765 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. Of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C Notification No. and dated shown against the name of each of the said establishment from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule – I against their names.

No.EPF/SO/ACC(TN&KR)/F.No.TN&KR/01/2010

S.O whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) herein after referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed here to, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner concerned from the operation of the said scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional P.F. Commissioner concerned and maintain such amount and provide such facilities for inspection, as the Central P.F. Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such Inspection charges as the Central Govt. May from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc., shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.
5. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the respective Life Insurance Corporation of India.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the respective Life Insurance Corporation of India as a ready adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the respective Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the respective Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) and Legal Heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

N. A. NAIR

Additional Central P. F. Commissioner
For and on behalf of Central P. F. Commissioner
New Delhi

SCHEDULE-(I)						
Sl. No.	PREVIOUS NOTIFICATION	RO/SRO	CODE NO. TN/	NAME OF THE ESTABLISHMENT	PERIOD OF EXEMPTION	
					FROM	TO
1	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1357 dated 20.02.2008	RO-CHN	49949	Hella Engineering Private Ltd. Chennai - 32	01.08.2009	31.07.2012
2	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 09.03.2007	RO-CHN	49760	Nouveau Medicament Private Ltd. Chennai-35	01.06.2008	31.05.2011
3	---	RO-CHN	50279	Maples ESM Technologies Ltd. Chennai-96	01.05.2005 01.05.2008	30.04.2008 30.04.2011
4	---	RO-CHN	31732	Triway Forwarders Private Limited Chennai-1	01.02.2006 01.02.2009	31.01.2009 31.01.2012
5	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/25 dated 02.04.2003	RO-CHN	12284	Shubha Sri Tools, Chennai - 96	01.01.2005 01.01.2008	31.12.2007 31.12.2010
6	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/25 dated 02.04.2003	RO-CHN	40534	Rigid Hospitals Private Ltd.Chennai-10	01.02.2005	31.01.2008
7	---	RO-CHN	40534-B	Rigid Health care Private Ltd.Chennai-10	01.02.2002 01.02.2005	31.01.2005 31.01.2008
8	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/857 dated 04.09.2001	RO-CHN	23447	Interfreight Services Private Ltd. Chennai- 1	24.06.2006	23.06.2009
9	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1878 dated 12.01.2004	RO-CHN	36638	National Trust Housing Finance Limited Chennai-2	24.06.2006	23.06.2009
10	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/25 dated 02.04.2003	RO-CHN	26462	Pioneer Services, Chennai-1	01.01.2005 01.01.2008	31.12.2007 31.12.2010
11	---	RO-CHN	36332	SAAG RR Infra Limited, Chennai-4	01.10.2006	30.09.2007
12	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/1357 dated 22.03.2008	RO-CBE	16638	G Print P Ltd. Coimbatore	1.06.2009	31.05.2012
13	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	RO-CBE	10247	Prachidhi Spinners Private Ltd.	01.12.2008	30.11.2011
14	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	RO-CBE	1097	Vijayeswari Textiles Ltd.	24.06.2009	23.06.2012
15	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	RO-CBE	11467	vijayaraja & Co,Coimbatore	01.03.2009	28.02.2012

16	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	RO-CBE	28355	Nilgiri Dairy Farm (P) Ltd.	01.01.2009	31.12.2011
17	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	RO-CBE	11075	V.R.Foundation, Coimbatore	01.01.2009	31.12.2011
18	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	RO-CBE	8842	Super Spinning Mills Ltd. D Unit	04.06.2009	03.06.2012
19	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	RO-CBE	2686	Nilgiris Co-Op Marketing Society Ltd.	24.06.2009	23.06.2012
20	---	SRO-TNY	33177	Janaki Cotton Mills Ltd.	01.08.2006	31.07.2009
21	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1 dated 22.11.2000	SRO-TNY	13548	Sankar Higher Secondary School	24.06.2009	23.06.2012
22	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/1417 dated 29.02.2004	SRO-TNY	33309	Subburaj Spinning Mills	24.06.2009	23.06.2012
23	---	SRO-TNY	37284	SSD Spinning Mills Ltd.	01.01.2009	31.12.2011
24	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	SRO-TNY	24007	Syed Cotton Mills	01.05.2009	30.04.2012
25	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/860 dated 04.09.2001	SRO-TNY	20106	Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Ltd. Tuticorin	24.06.2009	23.06.2012
26	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1468 dated 18.03.2008	SRO-TNY	24872	Kodai Automobiles	24.06.2009	23.06.2012
27	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/37265 dated 16.03.1999	SRO-TNY	1171	Dinamalar Tirunelveli	01.04.2009	31.03.2012
28	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	SRO-TNY	2862	DCW Ltd. Tuticorin	24.06.2009	23.06.2012
29	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1468 dated 18.03.2008	SRO-TNY	6293	S.G. Jayraj Nadar & Sons	24.06.2009	23.06.2012
30	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/31059 dated 11.3.99	PC	263	Auro Electronics	01.11.1999 01.11.2002	31.10.2002 31.10.2004
31	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/991dated 07.05.2002	PC	155	The Flavour India Pvt. Ltd.	24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
32	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/747dated 29.08.2001	PC	656	The Prisms India Pvt. Ltd.	24.06.2006 24.06.2009	23.06.2009 23.06.2012

33	---	PC	1261	Electro Automation	01.03.2006 01.03.2009	28.02.2009 29.02.2012
34	---	SRO-SLM	16260	Easun Reyrolle Limited	01.03.1994 01.03.1997 01.03.2000 01.03.2003 01.03.2006 01.03.2009	28.02.1997 29.02.2000 28.02.2003 28.02.2006 28.02.2009 29.02.2012
35	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1337 dated 03.04.1993	SRO-SLM	21240	Ponni Sugars (Erode) Ltd. Tiruchengode	01.12.1993 01.12.1996 01.12.1999 01.12.2002 01.12.2005 01.12.2008	30.11.1996 30.11.1999 30.11.2002 30.11.2005 30.11.2008 30.11.2011
36	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/399 dated 08.06.2004	RO-MDU	24861	We Two Matches P Ltd. Sivakasi	01.02.2007	31.01.2010
37	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	RO-MDU	11402	Arun Match Works, Thiruthangal	01.03.2009	29.02.2012
38	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2009/719 dated 22.02.2009	SRO-TRY	44159	Periyar Centenary Girls Polytechnic College, Thanjavur	01.12.2006	30.11.2009
39	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/2872 dated 22.11.2000	SRO-TRY	27065	Shanmuga Precision Forging, Thanjavur TN/TR/27065	24.06.2000 24.06.2003 24.06.2006 24.06.2009	23.06.2003 23.06.2006 23.06.2009 23.06.2012
40	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/41 dated 28.01.1998	SRO-TRY	27964	Periyar Maniammal College for Technology for Women, Thanjavur	01.07.1999 01.07.2002 01.07.2005 01.07.2009	30.06.2002 30.06.2005 30.06.2009 30.06.2012
41	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2006/385 dated 25.06.2007	RO-TBM	11044	Procon Instrumentation Pvt. Ltd.	01.03.2006 01.03.2009	28.02.2009 29.02.2012
42	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	RO-TBM	26587	Rafisons (P) Ltd., Chennai	01.07.2000 01.07.2003 01.07.2006 01.07.2009	30.06.2003 30.06.2006 30.06.2009 30.06.2012
43	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1725 dated 23.06.1999	RO-TBM	30834	Mercury Manufacturing Co. Ltd.	01.09.2001 01.09.2004 01.09.2007	31.08.2004 31.08.2007 31.08.2010
44	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	RO-TBM	23291	Kasthuri Estates (P) Ltd. Chennai	01.11.2002 01.11.2005 01.11.2008	31.10.2005 31.10.2008 31.10.2011
45	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/4332 dated 17.09.1999	RO-TBM	31487	Fine Point Industries (P) Ltd.	01.07.2001 01.07.2004 01.07.2007	30.06.2004 30.06.2007 30.06.2010

46	---	RO-TBM	61256	Visteon Technical and Services Centre Pvt. Ltd. Chennai	01.06.2009	31.05.2012
47	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.03.2007	SRO-KK	14059	Manjeri Co-Operative Urban Bank Ltd. Manjeri	01.01.2009	31.12.2011
48	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.03.2007	SRO-KK	14431	Mooval Distributors Pvt. Ltd. Perinthalmahina	01.03.2009	29.02.2012
49	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/1357 dated 20.03.2008	SRO-KK	14607	ACE Motors (P) Ltd.Kozhikode	01.04.2009	31.03.2012
50	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/1357 dated 20.2.2008	SRO-KK	17355	Comtrust Charitable Trust Eye Hospital	01.08.2009	31.07.2012
51	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/1357 dated 20.03.2009	SRO-KK	17704	Mark Motors	01.04.2009	31.03.2012
52	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.03.2007	SRO-KK	14404	Chethana Pharmaceuticals	01.03.2009	29.02.2012
53	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	SRO-KK	14452	Roshini Publishers (P) Ltd	01.07.2009	30.06.2012
54	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.03.2007	SRO-KK	17707	Fortune Elastomers (P) Ltd.	01.03.2009	29.02.2012
55	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/1357 dated 20.02.2008	SRO-KK	17167	Hyson Heritage	01.07.2009	30.06.2012
56	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	SRO-KC	19372	FCI Technology Services Ltd.	01.04.2008	31.03.2011
57	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.03.2007	SRO-KC	15962	P.L. Lawrance & Co.	01.01.2009	31.12.2011
58	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/719 dated 22.01.2009	SRO-KC	21403	Popular Motor World Private Ltd.	01.05.2009	30.04.2012
59	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/719 dated 22.01.2009	SRO-KC	12130	Chinmaya Vidyalaya	01.02.2009	31.01.2012
60	---	SRO-KC	19159	Riya Travel & Tours (India) Pvt. Ltd.	01.04.2009	31.03.2012
61	---	SRO-KC	24649	Dentacare Dental Lab Pvt. Ltd.	01.07.2009	30.06.2012

62	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/1357 dated 22.03.2008	SRO-KC	15297	Eastern Retreads Pvt. Ltd.	01.05.2009	30.04.2012
63	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	SRO-KC	21456	Pierce Leslie Surveyors & Assessors Limited	01.07.2009	30.06.2012
64	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	SRO-KC	15608	Foster Marketing Company Pvt. Ltd.	01.06.2009	31.05.2012
65	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	SRO-KC	15594	Futura Medical Products (P) Ltd.	01.03.2007	28.02.2010
66	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	SRO-KC	15329	Synthite Properties & Investments Ltd.	01.05.2008	30.04.2011
67	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	SRO-KC	13483	Tyco Electronics Corporation (India) Pvt. Ltd.	01.04.2008	31.03.2011
68	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	SRO-KC	9981-C	Ernakulam Regional Co-Op. Milk Producers Union Ltd.	01.07.2007	30.06.2010
69	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.03.2008	SRO-KC	4640	Khadi Gramodyog Bhavan	01.06.2007	31.05.2010
70	—	SRO-KC	13784	Arjuna Natural Extracts Ltd.	01.07.2006 01.07.2009	30.06.2009 30.06.2012
71	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.03.2007	RO-TVM	12665	Asianet Satellite Communications Ltd.	24.06.2006	23.06.2009
72	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.02.2009	RO-TVM	1914	Kerala State Co-Operative Agricultural and Rural Development Bank Ltd.	24.06.2009	23.06.2012
73	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.02.2009	RO-TVM	12623	Great India Tour Company Pvt. Ltd.	01.11.2008	31.10.2011
74	—	RO-TVM	22384	Sherston Educational Software Pvt. Ltd.	01.12.2006	30.11.2009
75	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/719 dated 22.01.2009	SRO-KNR	11913	Prime Veeners Ltd.	01.02.2009	31.01.2012
76	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	3395	TELK Canteen Employees Co- operative Society, Kochi	01.11.2009	31.10.2012
77	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	2551	Transformers and Electricals Kerala Limited, Kochi	01.11.2009	31.10.2012

78	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/719 dated 21.2.2009	SRO-KC	1958	Anand Water Meter Mfg. Company Pvt. Ltd., Kochi	01.12.2009	30.11.2012
79	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KC	13367	Kancor Ingredients Ltd., Kochi	01.10.2009	30.09.2012
80	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.03.2007	SRO-KC	13444	TATA Ceramics Ltd., Kochi	01.01.2009	31.12.2011
81	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2007/1357 dated 22.3.2008	SRO-KK	14054	Al. Shifa Hospital (Pvt) Ltd. Malappuram	01.04.2009	31.03.2012
82	---	RO-CHN	54133	Total Maritime Design Pvt. Ltd. Chennai	01.09.2009	31.08.2012
83	---	RO-CHN	54221	Aria Chemicals Private Ltd. Chennai - 28	01.09.2009	31.08.2012
84	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/719 dated 22.01.2009	RO-CHN	49557	Navia Markets Limited, Chennai - 34	01.03.2008	28.02.2011
85	---	RO-CHN	49258	AVT Infotech Private Limited, Chennai-8	01.09.2007	31.08.2010
86	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/1357 dated 20.02.2008	RO-CHN	48453	eG Innovations Private Ltd. Chennai-34	01.10.2009	30.09.2012
87	---	RO-CHN	53125	ETA Technopark Limitd, Chennai - 4	01.07.2008	30.06.2011
88	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2008/ dated 12.09.2009	RO-CHN	36693	Kerry Reliable Logistics Private Limited	01.09.2009	31.08.2012
89	---	RO-CHN	54199	Greenergy India Private Limited, Chennai-28	01.09.2009	31.08.2012
90	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	RO-MDU	4825	Raj Match Works, Sivakasi	01.06.2006 01.06.2009	31.05.2009 31.05.2012
91	---	RO-MDU	1155-A	Sree Karpagambal Mills Ltd. (Weaving Unit) Rajapalayam	01.04.2006	31.03.2009
92	---	RO-MDU	24355-A	Sel Jegat Modern Foils Embossers, Sivakasi	01.11.2006	31.10.2009
93	---	RO-MDU	24355	Sel Jegat Printers Pvt. Ltd., Sivakasi	01.11.2006	31.10.2009
94	---	RO-MDU	58305	Rajapalayam Spinners Pvt. Ltd., Rajapalayam	01.07.2009	30.06.2012
95	---	RO-MDU	57917	Jy. R.P. Industries, Madurai	01.08.2007	31.07.2010
96	---	RO-MDU	24491	Digvijay Polytex Pvt. Ltd., Srivilliputhur	01.01.2009	31.12.2011

97	---	RO-MDU	37685	Sri Venkatachalapathi Spinning Mills Pvt. Ltd., Rajapalayam	01.08.2009	31.07.2012
98	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	RO-MDU	20074	We Two Match Industries, Thiruthangal	01.02.2007	31.01.2010
99	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	RO-MDU	42052	Sri Matha Spinning Mills P. Ltd., Dindigul	24.06.2006	23.06.2009
100	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	RO-MDU	2649-A	Arasan Agencies, Sivakasi	01.02.2007	31.01.2010
101	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	RO-MDU	2649	Arasan Match Industries, Sivakasi	01.02.2004 01.02.2007	31.01.2007 31.01.2010
102	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	RO-MDU	29394	Meenakshi Mission Hospital & Research Centre, Madurai	01.08.2008	31.07.2011
103	---	SRO-TNY	16786-A	Kal Publications Pvt. Ltd., Tirunelveli	01.07.2007	30.06.2010
104	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/554 dated 29.12.2004	RO-MDU	187	Madura Coats (P) Ltd. Tuticorin	24.06.2009	23.06.2012
105	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/1424 dated 29.12.2004	SRO-PCY	1197	Leo Fasteners, Puducherry	01.05.2006	30.04.2009
106	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/1424 dated 29.12.2004	SRO-PCY	703	Shoney Scientific India, Puducherry	01.09.2006	31.08.2009
107	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/1878 dated 21.04.2004	SRO-AMB	19263	Kwikonveyors, Chennai - 49	01.03.2007	28.02.2010
108	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/1878 dated 21.04.2004	SRO-AMB	16772	Ambattur Clothing Ltd., Chennai -58	01.12.2003 01.12.2006	30.11.2006 30.11.2009
109	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 22.01.2009	SRO-AMB	17352	Cortica Mfg. India Pvt. Ltd., Thirumazhisai	01.12.2009	30.11.2012
110	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/1417 dated 29.12.2004	SRO-AMB	6993	MIL Industries Limited, Ambattur	01.08.2006 01.08.2009	31.07.2009 31.07.2011
111	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/5419 dated 31.03.2007	SRO-AMB	5738	Arkkays National Engg. & Fdry Co., Ambattur	01.03.2008	28.02.2011
112	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2009/719 dated 21.02.2009	SRO-AMB	10868	Krebs Engineering Pvt. Ltd., Ambattur	01.10.2009	30.09.2012

113	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 31.03.2007	SRO-AMB	35738	Alpha Springs Chennai (P) Ltd. Ambattur	01.03.2009	28.02.2012
114	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 31.03.2007	SRO-AMB	36903	Alfa Rubber & Springs (P) ltd., Ambattur	01.05.2007	30.04.2010
115	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1878 dated 21.04.2004	SRO-AMB	5646	Kwality Products Pvt. Ltd., Ambattur	01.02.2007	31.01.2010
116	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 31.03.2007	SRO-AMB	65445	Caterpillar Commercial Pvt. Ltd. Thiruvallur	01.01.2007	31.12.2009
117	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1878 dated 21.04.2004	SRO-AMB	17267	Jai Balaji Control Gears Pvt. Ltd., Ambattur	01.03.2004 01.03.2007	28.02.2007 28.02.2010
118	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 31.03.2007	SRO-AMB	7145	Domore Tools & Accessories (P) Ltd., Ambattur	01.03.2009	29.02.2012
119	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 31.03.2007	SRO-AMB	4171	Ultra Marine & Pigments Limited, Ambattur	01.08.2009	31.07.2012
120	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 31.03.2007	SRO-AMB	16292	K-Lite Industries, Ambattur	01.10.2008	30.09.2011
121	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 31.03.2007	SRO-AMB	31107	Southern Agro Implements Pvt. Ltd., Ambattur	01.03.2007	28.02.2010
122	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2009/719 dated 12.09.2009	SRO-AMB	4725	Brakes India Limited, Padi	01.06.2007	31.05.2010
123	AP/EPFO/ACC/SZ/F-No.240/2009/ dated 12.09.2009	SRO-AMB	5374	Productivity Element Pvt. Ltd. Ambattur	01.08.2009	31.07.2012
124	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 31.03.2007	SRO-AMB	6717	Devendra Exports Pvt. Ltd., Ambattur	01.02.2007	31.01.2010
125	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1357 dated 20.02.2008	RO-TAM	23901-Q	Valliammai Engineering College, Kattankulathur	01.03.2004 01.03.2007	28.02.2007 28.02.2010
126	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 09.03.2007	SRO-SLM	21052	Renowned Auto Products MFRS. Ltd. Hosur	01.06.2006 01.06.2009	31.05.2009 31.05.2012
127	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/50 dated 10.12.2005	SRO-SLM	47329	Agrim Automach (P) Ltd., Hosur	01.07.2007	30.06.2010

128	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1424 dated 29.12.2004	SRO-SLM	47350	Raja Crwons and Cans Private Ltd., Hosur	01.01.2007 01.01.2010	31.12.2009 31.12.2012
129	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1897 dated 27.1.2004	RO-CHN	2699	TUCS Ltd., Triplicane Chennai 5	01.04.2004 01.04.2007	31.03.2007 31.03.2010
130	---	RO-CHN	7558	Durgabai Deshmukh General Hospital& Research Centre, Chennai-28	01.04.2005 01.04.2008	31.03.2008 31.03.2011
131	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/5419 dated 09.03.2007	RO-CHN	2239	Star Talkies, Chennai-5	01.03.2009	29.02.2012
132	---	RO-CHN	30775	Susruta Agencies (MAS) Private Ltd. T.Nagar	01.01.2006 01.01.2009	31.12.2008 31.12.2011
133	---	RO-CHN	22232	Technomed Electronics, Chennai - 96	01.04.2003 01.04.2006 01.04.2009	31.03.2006 31.03.2009 31.03.2012
134	---	RO-CHN	52461	Kal Radio Limited Chennai - 41	01.07.2007	30.06.2010
135	---	RO-CHN	23476	T.K.K.Jain Primary School, Chennai - 33	01.04.2003 01.04.2006	31.03.2006 28.02.2009
136	---	RO-CHN	52460	South Asia FM Limited, Kottivakkam, Chennai - 41	01.07.2007	30.06.2010
137	---	RO-CHN	31052	Paramount Shipping Services, Chennai-1	01.03.2006 01.03.2009	28.02.2009 29.02.2012
138	---	RO-CHN	51185	Santec Solutions Pvt. Ltd., Chennai - 14	01.08.2006	31.07.2007
139	---	RO-CHN	50100	Bharat Technologies Auto Components Limited, Chennai-2	01.09.2004	31.08.2005
140	---	RO-CHN	22833	Texcel Engineers Private Limited, Chennai	01.08.2003 01.08.2006	31.07.2006 31.07.2009
141	---	RO-CHN	48573	Opus Software Solutions Private Ltd. Chennai-10	01.10.2007	30.09.2010
142	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/1025 dated 02.08.2002	RO-CHN	30230	Leaap Forwarders Private Limited, Chennai-1	01.03.2004 01.03.2007	28.02.2007 28.02.2010
143	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt-1/554 dated 14.7.2004	RO-CHN	16536	Sanco Trans Limited, Chennai	24.06.2006	23.06.2009
144	---	RO-CHN	23140	Gravity Die Casters Private Limited, Chennai-96	01.07.1996 01.07.1999 01.07.2002 01.07.2005 01.07.2008	30.06.1999 30.06.2002 30.06.2005 30.06.2008 30.06.2011
145	---	RO-CHN	52826	Madras Cements Limited, Chennai-4	01.07.2007	30.06.2010

146	---	RO-CHN	26338	Trimex Industries Limited, Chennai-18	01.02.2007	31.01.2009
147	---	RO-CHN	26338-A	Sphera Minerals Private Limited, Chennai-18	01.02.2007	31.01.2009
148	---	RO-CHN	16254	Dr. Agarwal's Eye Hospital, Chennai-86	01.11.2007	31.10.2010
149	---	RO-CHN	50219	S4C Services Private Ltd., Chennai-14	01.03.2003 01.03.2006	28.02.2006 29.02.2008
150	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/1878 dated 12.1.2004	RO-CHN	16445	International Services, Chennai-1	24.06.2006	23.06.2009
151		RO-CHN	52563	Chola Insurance Services Private Limited, Chennai-1	01.06.2007	31.05.2010
152	---	RO-CHN	23200-A	Cholamandalam MS Risk Services Limited, Chennai-1	01.03.2007	28.02.2010
153	---	RO-CHN	52696	GGL Line Private Limited, Chennai-1	01.06.2007	31.05.2010
154	AP/EPFO/ACC/SZ/P.No.240/2 006/5419 Dt.9.3.07.	SRO-TNY	33192	Rajapalayam Textiles, Perumalpatti	01.03.2009	29.02.2012
155	AP/EPFO/ACC/SZ/P.No.240/2 006/5419 Dt.9.3.07.	SRO-TNY	33175	Penguin Paper Industries , Pettai	01.04.2009	31.03.2012
156	---	RO-MDU	37515	Bali Industries, Kappalur	01.02.2008	31.01.2011
157	---	RO-MDU	58122	Multiwrapes (P) Ltd. Rajapalayam	01.07.2008	30.06.2011
158	---	RO-MDU	29979	Madurai Diesel Sales&Services, Madurai	01.03.2008	28.02.2011
159	---	RO-MDU	10238	Sathya Packaging Industry, Madurai	01.04.2008	31.03.2011
160	---	SRO-TNY	11551-C	Century Match Works, Kovilpatti	01.12.2008	30.11.2011
161	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 09.3.2007	SRO-TNY	11551	YesEsDe Match Company Ltd., Kovilpatti	01.04.2009	31.03.2012
162	No.2/1959/EDLI/Exem/89/Pt- 1/5919 dated 9.2.2000	SRO-TRY	10471	Indo Fab, Trichy - 15	01.09.1999 01.09.2002 01.09.2005	31.08.2002 31.08.2005 31.08.2009
163	AP/EPFO/ACC/SZ/F- No.240/2006/5419 dated 31.3.2007	RO-CBE	16492	The Lawrence School, Lovedale, Ooty.	01.09.2008	31.08.2011
164	---	RO-TBM	61785	JCBL Marrel Tippers Pvt. Ltd., Oragadam	01.10.2008	30.09.2011
165	---	RO-TBM	61446	Fedby Information Services Pvt. Ltd., Chennai-32	01.06.2008	31.05.2011
166	---	RO-TBM	61122	Merill Technology Services India Pvt Ltd.	01.01.2009	31.12.2011

167	---	RO-TBM	60657	Conceria Virginia Chennai Pvt. Ltd. Chennai - 44	01.12.2005 01.12.2008	30.11.2008 30.11.2011
168	---	RO-TBM	60639	TVS Logistics Services Limited, Chennai-97	01.03.2005 01.03.2008	29.02.2008 28.02.2011
169	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ Gazette/2007/1357 dt/20.02.2008	RO-TBM	17283	Titanium Tantalum Products Limited, Chennai - 73	01.06.2008	31.05.2011
170	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt-1/28800 dt.01.07.2005	SRO-PCY	438	Pondicherry Planning Authority, Puducherry	24.06.2006	23.06.2009
171	---	SRO-PCY	1430	Auro Engineering Company, Puducherry	01.05.2006	30.04.2009
172	---	RO-TBM	40130	Dalant Infant Products (India) Pvt. Ltd., Tambaram	01.02.2008	31.01.2011
173	---	RO-TBM	61792	Yantra Fintech (India) Pvt. Ltd. Naduvakkarai	01.10.2008	30.09.2011
174	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt-1/991 dt.7.5.2002	SRO-PCY	452	Snam Alloys Private Ltd., Puducherry	01.12.2006	30.11.2009
175	---	SRO-PCY	255	Aurofarm, Puducherry	01.03.2003 01.03.2006	28.02.2006 28.02.2009
176	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt-1/1424 dt.29.12.2004	SRO-PCY	982	Ravikumar Distilleries Ltd. Puducherry	01.10.2006	30.09.2009
177	No.2/1959/DLI/Exem/89/Pt-1/18946 dt.9.12.2005	SRO-PCY	620	Supreme Aromatics (P) Limited, Puducherry	01.06.2006	31.05.2009
178	AP/EPFO/ACC/SZ/F.No.240/ Gazette/2006/385 dt/25.06.2007	RO-TBM	19259	Forms & Gears, Chennai-32	01.08.2004 01.08.2007	31.07.2007 31.07.2010

N. A. NAIR
Additional Central Commissioner
Tamilnadu & Kerala